



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 828 राँची, शुक्रवार

24 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

23 अगस्त, 2018

संख्या-5/आरोप-1-45/2018-1757(HRMS)--श्रीमती अमृता खाखा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-285/स्था०, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्रीमती खाखा के विरुद्ध विभागीय अनुशासनहीनता बरतने, विभागीय नियमावली एवं कोषागार संहिता का उल्लंघन करने तथा सरकारी धन की हानि करने संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया है। पुनः उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-346/स्था०, दिनांक 31 मई, 2018 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध पदीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने, स्वेच्छाचारिता बरतने, विभागीय निदेशों का उल्लंघन करने, सरकारी कोष को क्षति पहुँचाने तथा कोषागार संहिता का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. उक्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्रीमती खाखा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्रीमती खाखा का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग रहेगा जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	AMRITA KHAKHA (110031287102)	श्रीमती अमृता खाखा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा को कंडिका 4 में अंकित तिथि के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।	23/08/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007
